[illegible]

आशा सफूकुथि
511
ASHA ARCHIVES

१ॐ नमो वज्रशत्वाय॥ ॐ नम मञ्जुश्रीयनम॥ ॥अथ वज्रधर॥ श्रीमान् दुदान्तेडमक॥ पर॥ ॥त्रैलोक्यविज
यिविलोगुह्यरांकुशिशेश्वर॥ ॥अथ अथानन्तरं॥ पूर्वकथाउं नं विज्याउगव॥ आकाशनप्रज्ञापारमिताउदयज
याविज्याता॥ अकाशनवज्रशत्वउदयजुयाविज्याता॥ ॥थोपनिनिस्तंसेन समस्तदेवलोक मनुष्यलोकदयक
रं षड्कनिशंलारउत्पत्तिजुवखेङेना॥ श्रीखभानसंजुत्नजुव अनेगदुष्टगनपनिसेनजयेपेमफद इन्द्रीयग
न आदिन मर्दनयाक त्रैलोका विजययाक गुह्यरोकयानधर्मयावरन जीनरपंविज्याक गुह्यत्रमंहायान आदिनक्री
यायाक वज्रयाश्वरवज्रधरत्वंजुपक्षकं भगवानन आज्ञादयकाव विज्यान॥ ॥ १ ॥ ॥विशुद्ध पुराए
रिकाक्षी प्रफुल्लकमलाननं॥ प्रोलालयंवज्रवर खकरेण मुहुर्मुहुः॥ ॥गंथिलन परमेश्वयोरसा

गथिंग्ववजसत्वधारसाविकासरपंचोउ· ········· वउथींग्वमिखा·हनंविकासमानन·चनकनकहोव। परेखानवउथ्य·हनों
वज्रसत्तेनविज्याक·धवमहावन·वारंवारवज्रथनिउंनहनंविज्याक·थथिंग्ववज्रज्ञानधररपु·थथिंग्ववज्रसत्वत्वनमस्कारथ
कं·श्रीशाक्यमुनिनभवसंशालोकयान·आज्ञाविर॥ २ ॥भ्रकुतिनरंगप्रमुखैव। रत्नैत्रैवज्रपानिभि॥ दुद्दान्तदमकैवींली।
विलवीभत्सरुपीभि॥ ० ॥वज्रपानिनंप्रमुखन अनेगवज्रयानिपनिसेनं·इन्द्रियगनआदिनं·जयरपंचोउं·महासंजुक्त·
वरवन्न। भयंकरउग्ररुप·थथिंग्ववज्रपानि॥ ३ ॥उर्लोलपमीस्वकरै। प्रोस्थुलवज्रकोटीभी। प्रज्ञापायमहाकरुणा जग
दर्थकरैयरै॥ ० ॥थवराहाथन·वज्रथनिउंन·लेनविज्याक·अत्यंन्नगाज्वल्पमानयाउंन। थोवजयाकिरनना। समस्तवि
घ्नपनि·सपनिउंनवयमहार। ज्ञानयाउपायनजायरष्ट·महाकरुमानसंपर्मजुव·जगतसंसारयाष्टस्वष्टार्थयाक। महा

करुनावन्त। थथिंगववज्रसत्वधकं। श्रीशाक्यमुनिन आज्ञादयक॥ ४ ॥दुष्टानुष्टानयमुदिनि। क्रोधविग्रहरूपिनी। वुद्धन्त
न्यकोनाथे। मार्द्धपनन्नवीयहे॥ ॥थेन्नया आनन्दन। संतुष्टमानजुव महाक्रोध सुर्न्नियाऊनचोऊ, हनोवुद्धमार्गसह्लास्यनया
धर्मधरपं विज्याक करुणामयनसंपर्णजुव। सभायसहितन कोद्धुऊनवचोऊ॥ ५ ॥प्रणामेनाथं संवुद्धं। भगवाँवन्न
तथागत॥ क्रताञ्जलिपुनोमुत्वा इन्द्रमा हस्थितो श्यनथ॥ ॥भगवानलश्रीशाक्यमुनिलथागत। सहवने हाथञ्जल
रपं नमस्कारयाऊन, वज्रपानिआदिन। समस्तदेवतं अवलोकनं। हनापयान। श्रीशाक्यमुनिस्के॥ ६ ॥मधिनाथम
माथाय। अनुकंपाय मविनो। मायाजारामीसंवोधियथारामीभवाम्यहं॥ ॥भोभगवान्श्रीशाक्यमुनि जेपनि सहितं २
प्रायनिमिल्लिन। जेपनिउपकारयायनिमिल्लिन। जेपनिकृपायाऊन, थोमायाजारतन्नयाख। जेपनिसेन ऊनेयीह्वायाऊनव

द्दलपोरसेन आज्ञादयकं प्रसन्नजुष्पविज्याय मालधकं। भगवानश्रीशाक्यमुनिस्केयिनापयानथ॥ ७ ॥अज्ञानपंकमग्ना
नी क्लेशव्याकुलचेतसा। हितायसर्वसत्वानां। मनुत्तरफलाप्नय॥ ॥भोभगवान्श्रीशाक्यमुनि। अज्ञानहाऊन। पंकसरो
पहुऊनचोऊ। समस्तलोकदुःखनव्याप्तरपंचोऊ। थोसमस्तसत्वा। हितउपकारयायनिमिल्लिन। अनुत्तरज्ञान। सहजानन्दफल
रायनिमिल्लिन। आज्ञादयकं दर्शनजुपमालधकं। वज्रपानिनहनापयान॥ ८ ॥प्रकासयतुसंवुद्धा। भगवंसाल्लाजतकुम
महासमयतत्वोज्ञ। इन्द्रियास्यपवि न्यस्थ॥ ॥भोभगवान्। थोमायाजारतन्त्रयाख प्रकासयायमार। गथिंगवद्दलपोरधा
रसा। महाज्ञानवन्न समस्तलोकयात नेवमतेधकं धर्म्म अधर्मखऊन सिक्षरपं विज्याक। समस्तसंसारयागुरु महायानक्रिल्ला
याआदिनं। समस्तज्ञानतत्वोया। सुन्यताज्ञानआदिनसेव हनंयिचुिया मनवुद्धियांकारनसेवह्लं। द्दलपोरधकं। वज्रपानिनथा

र॥ ९ ॥भगवान्ज्ञानकायसे। महाह्मीषसेगिसेने। मञ्जुश्रीज्ञानकायसे। ज्ञानमूर्त्तिस्वयंम्भूव॥ ॥भोभगवान्श्री
शाक्यमुनि। गथिंव्वज्ञानसचिन्न। चक्षुमदुयाखामि। समस्तसंसारयाखामि। समस्तशाशारयाखामि। इस्वर। मंञ्जुश्रीधायाधर्मस्वा
मि। ज्ञानमूर्त्तियाऊनविज्याक। थोस्पोर। स्वयंम्भूयाख। आज्ञाद्यकं। प्रश्नेनजुयमारधकं वज्रपानिनयिनापयान॥ १० ॥
गंभीरार्थामुदारार्था। महार्थानामसंगीनि। आदिमध्यान्तकल्यानि। नामसंगीनिमुत्तमा॥ ॥भोभगवान्श्रीशाक्यमुनिगं
थिंव्वनामसंगीनितयाअर्थ। समस्तसत्वयामोक्षगतियाक। थोअर्थया। थाहाकायमजिव। अनन्तव्ववरस्यायमंजीव। उत्तमज्ञान
कथाखवथो। समस्तशास्त्रयासितंश्लेष्ट। थोशास्त्रवनुलेमेवनाछुनंमदु। गथेनधारसा। आदिसं। अन्तसं। मध्यसं। कल्यानमंगरनसं
दर्सजुव। नामसंगीनिधायाशास्त्रमहाउत्तमकथानसंदर्सजुवथथिंव्वनामसंगीनि॥ ११ ॥यात्रिंत्रैभाषिनाबुद्धै४ ३

भाषिषन्तेहेनागता। यत्पुत्पन्नाश्चसंबुद्धा। याभाषंतेपुनःपुनः॥ ॥हयावऊनथागतपनिसेनं। क्वासेनाथा लिमोरवयखु
द्धपानिसेनआनन्दयाऊनयत्रयिव आवदसेचोऊ। नथागतपनिसेन। बांवारपरपंतवथथिंव्वनामसंगीनि॥ १२ ॥
मायाजालेमहातन्त्रे। याचाम्निसंप्रतिपत्ते। महावज्रधरैर्हृष्टे। रस्यपैमन्त्रधारिभी॥ ॥गथिंगोनामसंगीनिधारसा। मा
याजारतन्त्रसपिकासेनयाव। थोशास्त्रननामसंगीनिप्रकाषयाऊन। नवरवज्रधरपनिसेन। आनन्दनपरपंतयागुरि। थो
नामसंगीनि॥ १३ ॥अहंचैनाधारयिष्यामि। निर्यानन्त्वदृढाशय। यथाभगवान्म्यहंनाथं। सर्वसंबुद्धकायधृक॥४
॥ ॥नोभगवानश्रीशाक्यमुनि थोनामसंगिनिधायाशास्त्रजिनस्कचित्तयाऊनधररपे। हवरस्यानथागतपनिसेन।
वज्रधरपनिसेनं। धररपार्थे। जेनंधररपेधकं प्राथनायाऊन। समस्तज्ञानकथासगुह्यान्तरधर्मकथासधररपंविज्याकधकं धाय।

ओं जेनथरपेधकं। थोनेखश्रीशाक्येमुनिस्के हनापयायपयान। वज्रपानिन॥ १४ ॥प्रकाससर्वीधसत्वानां। यथासयविशे
षनत्व अस्मेषन्केहनासाय। अस्मेर्षाज्ञानहावय॥ ॥भोवज्रपानिसमस्तप्रानियान। उधाराया यनिमिस्तिन प्रकासयाय
मा। गथिंगवनामसंगीनियाजल। मिखाजलवउथं अनेगदुःखमोवकेयानिमिस्तिन अनेगअज्ञानदकों कानलपंमोचकेयान
प्रक्षानयाय॥ १५ ॥एवंमध्येषकुहेंद्रो। वज्रपानिनथागत कृतांजलिपुटोभूत्वा। प्रहोषायस्थितोश्यनथ॥ ॥
थोनेप्रकारन। इन्द्रआदिन। वज्रपानिगनन श्रीशाक्येमुनिस्के प्राथनायान। गथेप्राथनायानधारसा हाथजोजरपाव। कोछुउनव।
श्रीशाक्येमुनिसहवने। वज्रपानिसंबोन॥ १६ ॥अर्थेषनाज्ञानगाथाषोडश॥ ॥थोनेज्ञानगाथाख। श्लोकप १६॥ ०॥
अथसाक्येमुनिभगवान्। संबुद्धोशाक्यमुद्धिपदोत्तम। निन्नेमयायनास्फिता। स्वज्ञिद्धास्वमुखाकुभा॥ ॥थ्वनंश्रीशाक्यमु ४

निनवज्रपानिकउ। गथिंगवश्रीशाक्यमुनिधारसा। समस्तनथागतवुधया। ज्ञानथोरस्नहनोंगथिंगवभगवान्। समस्तदेवलो
कसंउत्तम। महानिर्नयापीरएसंसयाउ थवद्युतुन। मंगरवचनह्माक। थथिंगवश्रीशाक्येमुनि॥ १ ॥ब्विनिसंदर्शेलो
कानां। मयायत्रयशोधनं। त्रैलोकेभास्करं नं। चतुमाराभिसासनं॥ ॥गथिंगवभगवान्श्रीशाक्यमुनिनसमस्तलोक
सोयाव। सुखुउनकुरावसोसेंविद्याक। हनोंगथिंगवविकारयाउंन। संसारमोचकिवगुरी। कायवायचित्तनजायरपजीन।
पापंशोधनयाउनमोचकु। त्रैलोकेसंथवनेजनव्याप्रउनव। पेलमारशत्रुपनिजयरपाव। धर्मदेशनाविज्ञल। थथिंगव
श्रीशाक्येमुनि॥ २ ॥त्रैलोक्यमायरयंन्या। ब्रह्मामधुरयागिरा। प्रन्यभाषन्नेगुहेन्द्रो। वज्रपानिमहावर॥ ॥
गथिंगवश्रीशाक्यमुनिजसु। थोयाशब्दब्रह्मघोष। स्वर्गमधेपानारसनावशवद उनेतुपयाप। थथिंगवमधुरसवदनश्री

शाक्यमुनिन वज्रपाणियात आदेशविर॥ ३ ॥साधुवज्रधर ४ श्रीमान् ।साधुमेवज्रपानुय ।यस्त्वं जगद्विनाथाय ।महाक
रुणाविन् ४। ॥गथेश्रीशाक्यमुनिन आज्ञादनधाल्सा ।भोवज्रपानि वंन्पस्साधुदधकं ।जगत्ससारयाहितयायनिमि
त्तिन ।महाजोगकथा छनउँन ।छमहाकरुनावन्त खवधकं श्रीशाक्यमुनिन आज्ञाविर॥ ४ ॥महार्थानामसंगिनिप्र
वित्रामघनाशनि ।मञ्जुश्रीज्ञानकायस्य ।मन्त्रस्तोत्रुसमुच्चये॥ ॥भोवज्रपानिगथिम्वनामसंगिनि ।समस्तंप्रवित्रप
क ।मंजुश्रीयाज्ञानशारिङ ।थोयामन्त्रउँनेनुउच्चगयावछन॥ ५ ॥नन्साधुदेशयामेख ।अहंनेगुह्कोधिप ।श्चराल्त्वं
मेनागमन ।नन्साधुभगवान्निनि॥ ॥भोभगवान् वज्रपानि ।छनउँ खजीवख ।छनस्मनयाउँन ।निश्चयनउँअ ५
जेनकनेजुरोधकें भगवान श्रीशाक्यमुनिन ।आज्ञादन॥ ६ ॥पनिवचनगाथांषट्॥ ॥वनगाथायाश्लोकपद्॥

॥ ॥अथशाक्यमुनिभगवान् ।सकलमन्त्रकुलं महन् ।मन्त्रविद्याधरकुलं ।वेवलोकेकुलत्रय॥ ॥थोनलिश्रीवज्रपानि
नेंकउ ।पुण्डरीकुल ।परमकुल ।बुद्धमार्गयाख ।आदेशविर ।अनेगकोटीनियुतशतसहस्र ।मंत्रजायलपथास ।मञ्जुश्री
त्वंजुर ।मन्त्रविद्याधर रपंचोउँ वेंधिसत्वं ।थोस्पोरत्वंजुर वेवलोकधायाथायया ।श्लेषहलं ४ मंजुश्रीत्वंजुर॥ १ ॥लो
कालोकोत्तरंकुलं ।लोकालोककुलं महन् ।महामुद्राकुलं चाग्र ।महोष्णीषकुलं महन्॥ ॥लोकोत्तरधर्म्म ।लोकस
्सारथोनिनानिपुण्डरिकुलं ।थोस्पोरत्वंजुल ।ख्वनेदकोपिथिविन्त्वंमुनि ।देवलोकयां ।बुद्धधर्मसंघयाकुलत्वं ।महामुद्राकु
लजुर ।वज्रमुद्रा आदिन ।अग्रउत्तमकुलं ।थोस्पोर ।महाचक्रमएउलयाकुलं थोस्पोर॥ २ ॥षट्कुलावलोकनगाथा
दे॥ ॥थोपुण्डरिकुलयाश्लोकपुर॥ ॥हमाषमन्त्रराजानां ।मंजुकामद्वयों ।अनुत्पादधर्मनिगाथा ।भाष
द्वयो।

न्नस्मगिराम्पने॥ ॥भोवज्रपानिङकंधकं।घुगुरिकुलंसमल्लमन्त्रयाराजाजुलं।अद्वयपरमार्थ।एकाकारस्वन्पनाअ
नेगधर्मसंपर्स्नयाङनचोङगाथा।बुद्धधर्म्मघसंनज्ञासेनाथा।मञ्जुश्रीयागाथाथो॥ १ ॥अआइईउऊएऐओ
औअंअः।थीनोद्वदीज्ञानमुर्त्ति।हंबुद्धोबुद्धानां। प्रवचनिनां॥ ॥थोद्वादशाक्षरपरमाक्षरयाहृदयसचोङज्ञा
नमुर्त्तिख।थ्वोगुरिषसेवहल।बुद्धमुर्त्तिजुरु।बुद्धमार्गलिसिचोङयां।सन्धयांङम्ल॥ २ ॥ॐवज्रतेक्ष्णदुःखछेदं।
प्रज्ञाज्ञानमुर्त्ति।ज्ञानकायवागीश्वर।अरपचनायनेनम॥ ॥श्वनाज्ञानन।दुःखछेदपु।महारुदुःखमोचकु।प्र
ज्ञानसंयुक्तजुरज्ञान।परमज्ञानशीलसधरएष।परमज्ञानधरएषमञ्जुश्रीत्वं।ममहृदयाथथिंगवमञ्जुत्वंनमस्कार॥ ३ ॥ ६
मायाजारभिसंवोधि।क्रमगाथांत्रिस॥ ॥थ्वोनेमायाजारलेत्रपावश्लोकपृ३॥ ॥नंथथाभगवाद्बुद्धो।संबुद्धोऽ

कारसंभव।अकारसर्वंवर्न्नोग्रे।महार्थपरमाक्षर॥ ॥थोनेबुद्धधर्म्मपरियानिन।प्रकासय्ययनिमित्तिन।ज्ञानस्वरू
पनधरएष।समल्लआघुलयाम्लख।आदिअन्नमदु।अनादिबुद्धस्वरूपख।थोसमल्लंदेवलोकउत्पन्निजुवरवासम
ल्लअर्थदकोउत्पन्निजुरवर॥ १ ॥महाप्राणोहेरुत्पादो।वातुदाहारवर्ज्जीत।सर्वाभीरापहेनोग्रे।सर्ववाक्
प्रभास्वर॥ ॥गथिंगवमञ्जुश्रीधारसा।महापानवायुस्वरूप।थमथेथमंउत्पन्निजुव।हनोंगथिंगववचनज्ञासंज्ञा
यमजिव।हृक्षाफलविपफरु।समल्लधर्मयाहेतुसमल्लवचनज्ञाकउनया।नेजस्वरूप।सिद्धिववनयाके।थथिंगव
मञ्जुश्री॥ २ ॥महामहमहाराग।सर्वसत्वानिकरः।महामहमहाद्वेष।महाक्लेशमहालिपू॥ ॥गथिंगवम
ञ्जुश्रीधारसा।अनिनवनेजन।सुनंङमनेङमदु।हनोंसमल्लप्रानिया।हृदयसंक्रिडायाङनंह्लेनंविज्याक।अनिनव

घऊआम्नायाऊन।हनोंसमल्लदुःखंमोचक्व।हनोंवेलीभावमदु।दुःखहाऊन्क्लेशयाशत्रु॥ ३ ॥महामहमहामोह।
मुदधीमोहसुन्दर॥महामहमहाक्रोध।महाक्रोधलीप्रमहान्॥ ॥गथिंथ्वमञ्जुश्रीसुवंमोहमदु।ज्ञाननउपदेशवि
व।नवतेजवन्न।अज्ञानिलयाअज्ञानमोचक्व।हनोंगथिंथ्वनवक्रोध।विसद्धयाऊनवोऊ।थोसुगीमोचक्वनवक्रोधशत्रुयासि
नं।नवशत्रुमोचक्व।थथिंथ्वमञ्जुश्री॥ ४ ॥महामह महालोभ।सर्वलोभनीसुन्दर।महाकामोमहाशिखो।महामो
दोमहावनी॥ ॥अनिनवधऊ।महारोमननसंजुन्नजुव।अत्पन्नशोभायमानजुव।हनोंसमल्लयालाभमोचक्व।हनोंसम
ल्लकामनाफलवियफव।महासुखआनन्दविव महाहर्षमाननसंजुन्नजुव।थथिंथ्वमञ्जुश्री॥ ५ ॥महारूपोमहा ७
कायो।महावर्णामहावपु।महामायामहोदार महाविपुरमराऊल॥ ॥थथिंगोसुन्दररूप।अनिनवशरीड।पि

थिविनंमऊंऊशरीडरूप॥हनोंगथिंथ्वरूपधारसा।महानामन्त्रात्राबउदार।महान्यावन्न।समल्लदेवलोकनं।मनुष्यलो
कनंनामकासिंनयाह्ल।महाचक्रयानायक।मंजुश्री॥ ६ ॥महाप्रज्ञायुधधरो।महाक्लेशाङ्कुशो।ध्यनि।महायसामह
किर्त्ति।महाज्योतिमहाद्युति॥ ॥नवधऊशास्त्रधरस्वपंविद्याक।गथिंथ्वशास्त्रधारसा।महाज्ञानशास्त्रधरस्वपंविज्याक
हनोंमहामहादुःखमारणानाउनयायया नमहाअंकुशधरस्वपंविज्याक नवनेजराऊनव।मंगरउन्नेमकिर्त्तिराऊनव।महा
तेजवन्नन।महाप्रभावथोर थथिंथ्वमञ्जुश्री॥ ७ ॥महामायाधरोविद्वान्।महामाहायार्थसाधकः।महामायारति
त्वा।महामायइन्द्रजालिकेः॥ ॥गथिंथ्वमञ्जुश्रीधारसा।नवधऊमहिमाथुर।अनेगमहिमाकेऊनव।ज्ञानसद्गुफिक
हनोंमहापंदित।हनोंमहाउन्नमअर्थपदवीयफव।थोसंसारयामायासइन्द्रजारदयकाथें।नानाप्रकारनसेनंविज्याक

थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ८ ॥महादानपतिश्श्रेष्ठ।महाशीलधरोग्रनि।महाक्षान्तिधरोधिरो।महावीर्यपराक्रम॥ ॥
उनेग।महाध्यानयाकलं।दानपतियामितंश्रेष्ठ।हनोंशीलपारमितायाचर्य्याधरए।महावीर्यवन्न।क्षमावन्न।सुया
सितंपराक्रमि।महावरवन्न।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ९ ॥महाध्यानसमाधिष्ठो।महाप्रज्ञाशरीरधृक्।महावलोमहोपाय
प्रणिधिज्ञानसागर॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीधारसा।ध्यानसमाधिसेनपूर्णज्ञुव।हनोंगथिंग्वधारसा।अतुलज्ञा·
नधरएपविज्याक।महावलवंजउपायसिद।ज्ञानयासमुद्र॥ १० ॥महामैत्रीमयोमेयो।महाकरुणाग्र्यनिन।मह
प्रज्ञामहाधीमान्।महोपायमहाकृति॥ ॥हनोंगथिंग्वमञ्जुश्रीधारसा।समस्तलोकप्राणिओउथ्यंमित्रभाव।महाआकुलि
वार।गुणायांआकुलीचावगुनयांअन्नमदु।समस्तपुनप्राणियाकेआकुलिचार।महानवधप्रज्ञावन्न।तथागतयाज्ञानवन्न।नन्नें ८

राक।महाउपकारि।नवरकार्यंयायफव॥ ११ ॥महाऋद्धिवरोपेतो।महावेगोमहाजव।महर्द्धिको।महासाक्षा।महावरप
राक्रम॥ ॥संशारयाखामि।महाऋद्धिवरवन्न।महावेगवंन्न।महापराक्रमथों।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १२ ॥महाभवा
द्रिसंभेत्ता।महावज्रधरोघन।महाक्रुलोमहारौद्रो।महाभयभयंकर॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।संसारपर्वतसंहारमया·
का।वज्रज्ञानधरएपंविज्याक।पापविघ्नवअनिजेक।ज्ञानवन्न महाभयपासितं।महाभयंकर।समस्तविघ्नयासितं।विघ्नयां
गणायानभयविव्हल।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १३ ॥महाविद्योत्तमोनाथो।महाविद्योत्तमोगुरु।महायाननयारूढो।महाया
ननयोत्तमः॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीधारसा।महाविद्याया।षडक्षरिविद्यायाखामि।समस्ततथागतयामन्त्रयागुरु।हनों
महायानक्रियायापरिदयक।उत्तमक्रीयासेव।थथिंग्वमन्त्रविद्यासेव।हनोंमहायानक्रियामुलपुरुषथथिंग्वमञ्जुश्री

॥ १४ ॥वज्रधातुमहामण्डलगाथाचतुर्दश॥ ॥वज्रधातुमण्डलयाख्यश्लोकपु १४॥ ॥महावैरोचनोबुद्धो म
हामुनिमहामौनि॥महामन्त्रनयोद्भवो॥महामन्त्रनयात्मक॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीधारणा।वैरोचनतथागतनयास्वभाव।थ
थिंग्वमहावज्र।मण्डलनवमध्यानयाक।हनोंगथिंग्वमहारमन्त्रउत्पत्तिजुवथासनर्त्रक्षरमुनि॥ १ ॥दशपारमिताप्राप्तो।द
शपारमिताश्रुद्धि।दशपारमितानय॥ ॥शीलपारमीताआदिनदशपारमिताआधार।हनोंगथिंग्वजीलपारमिता
याआश्रयम्मलाछियास्वरूप।हनोंजीलपारमितायासाश्रसङ्गाको।धर्मवरपाव।लोकवेवहारउत्पत्तियाक।हनोंदशपार
मितावरपान।निर्लिप्तविरुयाक।थथिंग्वमंजुश्री॥ २ ॥दशभूमिश्वरोनाथो।दशभूमिप्रतिष्ठित।दसज्ञानविशुद्धा २
त्मा।दशज्ञानविशुद्धधृक॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीपा।महेमा।जीगुरीभूमिस्थानयास्वामि।जीगुरिभूमिथापनायाउन्नदयक।

हनोंजीगुरिलक्षनआदिनज्ञानसडिङवलंमहाज्ञानविशुद्धयाउनधरए॥ ३ ॥दशाकारोदशार्थार्थो मुनीन्द्रोदशबलो
विभु।अशेषविश्वार्थकरो।दशाकारवशीमहान्॥ ॥तथागतादिन।जिगुरिआकारन।बुद्धयाराजास्वरूप।समलसमा
रदयकाव।इन्द्रीयवशीयाक॥संसारयाथाकुल।थथिंग्वमञ्जुश्री।थो॥ ४ ॥ऑनादिनिष्प्रपञ्चात्मा।शुद्धात्मा तथ
तात्मक८भूतवादियथावादि।तथावादिअनेनव॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।थोसआदिन।गोहदेवंमदु।संसारआ
दिनंदु८वेनमफउ।निर्मरचेन।अद्वयज्ञानस्वरूप।हनोंगथिंग्व।प्रत्यक्षनखनेदकोवादक्वाक।गथेअतमजुल।अर्थमञ्जु
जुधव।तथागतजकोसेनखासेनाथर॥ ५ ॥अद्वयोद्वयवादीच।भूतकोतिवेवस्थितन८नेलात्मपसिंहनिनाद।ह
निष्प्रर्गभीकर॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।समस्तजीवाजंतुपनियोनिनउत्पत्तियाउन।संसारदयकू।उत्तिधकंपञ्चम

तआम्नासव्यापरपयकाववोउ हनोंसिंह्याथिंग्वपराक्रम।समीउ कर्म्मयाक शिघ्रंमोचक्त।थथिंगोमञ्जुश्री॥ ६॥
सर्वतेगोमघोगनि।तथागतमनोज्ञव।जिनोजिनारिविजयी।चक्रवर्त्तिमहावल॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीसंसारसव
हरपञ्जवथथिंग्वमनयावेग।तथागतपनिसराजाल।समस्तशत्रुजयरपूल।महावरवज्र।महाचक्रसचोउ।थथिंग्वम
ञ्जुश्री॥ ७ ॥गनसुखोगनाचार्य्यो।गनेश्वगनपनिवशि॥महानुभावोधनेयो।अरनेनेयोमहानय॥ ॥गथिंग्वमञ्जु
श्रीसमस्तदेवगनयामोक्षसं।महाआचार्यस्त।बुद्धधर्मसंघयाथाकुलमनयाउम्नासयाक्रस्तं।महाप्रभावथोर।स्काका
रआत्मा॥ ८ ॥वागिश्ववाक्पतिवाग्नि।वाचस्पतिरनंतगी॥सत्यवाकसत्यवादिच।वतुसम्पोत्यदेशकश॥ ॥ १०
गथिंग्वमञ्जुश्री।अनेगवचनयाखामि।अनेगधर्मकथायाआदित्र।महारप्रानव्याष्यानक्लाक।समस्तवचनयाराजा॥

ज्या।
सत्यवचनजुकोष्ठसेवनावचनमद्दु।मैत्रिकरुणामुदितोपेक्षा।थोपेनानत्नोयादेशनायाउनवीक॥ २ ॥अवेवर्त्तीको
हनागामि।वेञ्जप्रत्यक्षनायक।नानानिर्यानतिर्यानो।महाम्नैकैकारन॥ ॥हुनाजुकोष्ठ।नेनामद्दु।प्रत्यक्षचर्यायां
।समस्तयानायकत्व।मञ्जुश्री।श्रावक।प्रत्येक।महायानआदिनयां।अनगनिर्यानसंदव।पिथिवि।आका।सनेजवायु
थनेयाआकारन।पञ्चम्हनआम्नाया।तत्नोव॥ १० ॥अहंक्षित्नोश्रवोभिक्षो।वीतरागोजीतेन्द्रीय।क्षमप्राप्तोदभय
प्राप्तशीतिभूतोहेनाविर॥ ॥अतिहंनाश्रयभिक्षुयाआश्रयाहनोविनरागयानत्नोधररप।इन्द्रीयजयरपेतपं
सामर्थ।थथिंग्वमञ्जुश्री।मोक्षपदराक।थोयानासमस्तभयंमुमार॥ ११ ॥विद्याचरनसंपन्न।सुगतोलोकवित्पर।नि
र्ममोनिरहंकार।सत्यद्वयनपष्ठितश॥ ॥गथिंग्वमंजुश्रीधारसा।समस्तशास्त्रचररप।सुगततथागतया।मध्येसचोउ

लोकयाकानेसकार्य्यसेव सन्यवचनजुकोष्ट।मेवनावचनमदु।अहंकारंमदु।महाक्रोमर।तन्नोंसंचोङ॥ १२ ॥संसारयार
कोनिष्ट।क्लनक्लन्यस्थरे।ष्यितनठकेवरज्ञाननिष्टन।प्रज्ञाशस्त्रेविदरन॥ ॥संसारसयारगयाङनचोङ।पायमारपरमार्थ
राउनपुथियापसचोङ।अनुन्नज्ञानन।अज्ञानमोचकु।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १३ ॥सधर्मोधर्मरा।भास्वा।लोकालोककरथपरठ
धर्मेश्वरोधर्मराजा।श्रेयोमार्गोपदेसकठ॥ ॥उन्नमधर्मराजा।महानेजवन्न।गथिंग्वधारसामनुष्ययामिखाया।हाकुदरे
या।चोसचोङलं।थथिंग्वपरमेश्वरत्वं।समस्तयानं।कल्यानमार्गरकेङंविज्याक॥थेथिंग्वपरमेश्वर।मञ्जुश्रीत्वं॥ १४ ॥
सिद्धार्थसिद्धिसंकल्पा।सर्वसल्पवर्जीतठनिर्विकल्पक्षयोधातु।धर्मधातुपचोवेय॥ ॥समस्तसिद्धियाक।मंजुश्रीनासं ११
पनायाकोमजुयफभेव।नानाविन्नयाविकारस।कर्पनवोङनवविकल्पमदु।मोवयंमदुधर्मधातुयाकारणस।ग्वबेरसं

मोवयडु॥ १५ ॥पुन्यवान्पुण्यसंभार।ज्ञानज्ञानाकरंमहन॥ज्ञानवान्सदसंज्ञानि।संभारद्वयसंभृत॥ ॥ग
थिंग्वमञ्जुश्री।महापुण्यवन्न।महानन्नोरक।पुण्यपयाभारथोर।महाज्ञानवन्न।ज्ञानजायपुथाय।थनेदकोपञ्चभूत
खनेमदु।परमार्थज्ञानसेव।पुण्यसंभारव।ज्ञानसंभारव।थोनेनापरिमानरूव्वङनर॥ १६ ॥शाश्वतोविश्वरा
योगि।ध्यानंध्येयोधियापति।प्रत्यात्मवेद्यहेचर।परमार्थत्रिकायधृक॥ ॥ग्वरनमोवयमफव।मोक्षयाथान
समस्तंसंसारयानायक।जोगजुयुनिनसपुस्संजुव।हनोध्याननंसपुस्संजुव।ध्याननयायजोग्य।महाबुद्धिपकासयाकल
समस्तयाआत्मननुसेयफव।मनवचनसोचररपेफव।थथिंग्वउन्नममंजुश्री॥ १७ ॥प[illegible]कायात्मकोबुद्धाप
ञ्चकायात्मकेविभु।पञ्चबुद्धात्ममकुट।पञ्चचक्षुरसंगधृकु॥ ॥पुण्यपसरिङनसंजुक्कजुव।उनपुरीसाडिङचरर

प्राउनगुरिज्ञानधररप्राउनगुरिलन्नो आदिनं।हनंउनहनंतथागतनमकुन।उनगुरिमिखोधररपु।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १८॥
जनक४सर्वबुद्धानां।बुद्धपुत्रपरीवेय।प्रज्ञाभवभवयोनि।धर्मयोनिभवान्नहन॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।समलनथा
गतयानंश्रेष्ठ।समल्लबुद्ध पुत्रयाउननव।हनोप्रज्ञाधाया।ज्ञानउपन्निजुवथाय।धर्मउत्पन्निजुवथाय।समलसं
सारया।भयमोवकु।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १९ ॥घनैकसारोवज्रात्मा।सद्योजातोजगत्पते।गगणोभोगस्वयंभू।प्र
ज्ञाज्ञानानरीमहान॥ ॥समल्लघनयासार।साक्षानवज्रशरिड।थमथेथमंउत्पन्निजुवहं।जगतंसारयास्वा·
मि।आकाशसजायरप्र।ज्ञानयाअग्निथें।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २० ॥वैरोचनोमहादिप्ति।ज्ञानजोतिविरोचन।जग
न्प्रदियोज्ञानाको।महातेजाप्रभास्वर॥ ॥गथिंग्वधारसा।वैरोचनतथागतथें।तेजवन्नमञ्जुश्रीज्ञानयाजोतिथें १२

र।जगतसंसारसं।थवतेजन।जाज्वल्यमानयाउनविज्या थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २१ ॥विद्याराजोगमंत्रेश्वा।मन्त्रराजोमहाथ
कृत।महोष्मीषाम्भुतोष्णिवो।विश्वदर्शीजगत्पति॥ ॥अनेगविद्यायाराजात्वे।हनंअनेगवज्रयास्वामित्वं।संसार
भावदर्शनयावकुलं।हनंअनेगमन्त्रयाराजात्वं।थथिल्लमञ्जुश्री॥ २२ ॥सर्वबुद्धमभावाग्र।जगदानन्दलोचन।
विश्वरूपीविधानाचा।प्रज्यमानोमहर्षि॥ ॥गथिल्लमञ्जुश्रीधारसा।समल्लबुद्धयाहुवनेवान॥हनंजगतसंसा
रया।आनन्दविव।थथिंग्वमिखाथोर।समस्तदेवनास्वरूप।समस्तसंसारदयकुलं।हनंसमस्तदेवनं।मनुष्यनं।प्रज्ञा
मानेआदरयाउनयाहं।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २३ ॥कुलत्रयधरोमैत्री।महासमयतत्त्वोद्भव।रत्नत्रयवरश्रेष्ठात्री
यानोत्तमदेशक॥ ॥महाविद्याकुलआदिनं।स्वगुरीकुलधररपंचोउ।हनोंमहायानया।उपदेशउत्पन्निजुव

धाम्व। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २४ ॥अमोघपाशो विजयी। वज्रपाशो महाग्रहः। वज्राङ्कुशो महापाशो। वज्रभैरवभीक
र४। ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीधारसा। अमोघपाशनं बंधरपोर। महाजसनं संपर्स। हनं नवग्रह आदिनं। वजपासनवे
सैं। वृद्धयायफव। वज्रया अंकुस। शिष्यायाक। याशधररप। गथिंग्व। घोरमुन्नि। भैरव आदिनं। महाभयविव
। थथिहलमञ्जुश्री॥ २५ ॥शुविशुद्धधर्मधातु। ज्ञानगाथां पंचविंशति॥ ॥थोनिनिर्मरधर्मधातुयाख्व
श्लोकपू २५ ॥ ॐ ॥क्रोधराजसन्मुखोभिमा। षड्लोक्रोषड्भुजो वीरः। दंष्ट्राकारकंकारः। हलाहलसतानन॥ ॥
क्रोधराजानं। षुषानस्वारा। षुक्षाराहान। षुव्वरमिषा। महावरवन्न। वाहाननव। महाहाकुष्वार। हलाहलधायाप
रमेश्वर। शनद्विपानष्वासनसंज्ञुन्नज्जुर। थथिउमुन्निधरपहलमञ्जुश्रीन॥ १ ॥यमान्तको विघ्नराजो। वज्र १३

वेगो भयंकरः। विघुनवज्रोहलवज। मायावज्रो महोदरः॥ ॥जमयाराजायाकेंनपं। विघ्नयाउनमर्द्दनयायफव
। थथिंग्वमहावेगवन्न। महाभयनक्कुल। हृदयसवज्रधरपहलं। मायावक्रंसंवज्रउत्तम। नवधउहलं। थथिंग्वम
ञ्जुश्री॥ २ ॥कुलिशेशो महायोनि। वज्रमन्दोनभोपम॥ अद्वैरैकजनोयो। गजचर्मपतापधृक्॥ ॥प्र
थमसवज्रउत्पन्निज्जुवथाय। वज्रगहे आकाशथिंग्व। अनेगवज्रधररप। थथिंग्ववज्रमुन्नि। हनौंनकनुउकिमि
याद्धेगुतिनउसेविज्याक। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ३ ॥हाहाकारो महाघोरो। हिहिकारभयानकः। अट्टहासो महा
हासो। वज्रहासो महारवः॥ ॥गथिंहमुन्निधारसा। हाहाकारशब्दन। हिहिकारसवयाउनचोउ। निमिलि
नउनिभयांक। थथिंग्वसद्दन। हननन। क्रूरवचोउ। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ४ ॥वज्रसत्वमहासत्व। लोकानि

नोमहर्द्धिकः॥ वज्रवक्त्रोमहामोदो। वज्रदंष्ट्राकरालनी॥ ॥गथिंन्ह मञ्जुश्रीयारूप। वज्रसत्वंथवशरिडयाउन
वज्रयायिल्वर। महज्ञानन्दयाज्ञानयाउनर् सुवेनचोउ। वज्रयासिनंभयंकर। समन्तसंश्लेष। दंष्ट्राकारविशाक्षसुन्नि॥
॥ ५ ॥वज्रनानायुधधरो। वज्रवक्त्रोनिकृन्तन। विश्ववज्रोधरोवज्री। एकवज्रीरनञ्जह॥ ॥गथिंग्व वज्रधररूपा
वचोउ। वराववज्रजुउनर्। हनोगथिंग्व वजधररूप। विश्ववज्रधररूप। छगुरिवज्रन। समन्तविघ्नं। सन्तुपनिंजयरफ्वो
उ। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ६ ॥वज्रज्वालाकरालाक्षो। वज्रज्वालशिलोरुह। वज्रावेशो। शतनाक्षवजरोचन॥ ॥गथिं
ह्लमञ्जुश्रीयामुन्नि। वज्रगहाथनजुउनर्। वज्रवऽथिंग्वनेज। हनोंमिखाजरसं। वज्रदुविसेंचोउशनछिमिखाथो। १४
यथिंग्वऽन्नमसुन्नि॥ ७ ॥वज्ररोमाङ्कुलतनू। वज्ररोमैकविग्रहे॥ वज्रकोटीनखारंभ। वज्रसारघनछवि॥ ॥

वज्रनऽन्पर्नि जुरशरिडि। हनोंवज्रवऽथिंग्वचिमिरिकर्कडि। हनोंकोटीरप्रमानवज्रवऽथिंग्वलसि। वजयानाथोग्वने
जामहानर्॥ ८ ॥वज्रमालाधरःश्रीमान्। वज्राभरणभूषितः। हाहाट्टहासोनिर्घोष। वज्रघोषोषडक्षरः॥ ॥
गथिंग्वसुन्नि थोस्योरस। वज्रमालानकोषायाव। वज्रआभरनसोभायाउनविज्याक। हाहाकारनेह्लूरावर्। षडक्षरि
मन्त्रमपन। संजुनजुर। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ९ ॥मञ्जुघोषोमहानाद। त्रैलोक्यैकरवोमहान्। आकाशधातुपर्यन्तं।
घोषांघोषोवतांवर॥ ॥मञ्जुश्रीघोषधाय। महाऽन्नम। ऊनेतुययाउ। मनहर्षशब्द। थथिंग्वशब्द। थोस्योरस
। हनोंगथिंग्वधारसा। त्रैलोकनंनारशब्द। थथिंग्वसब्दनसंजुनजुर। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १० ॥आदर्शज्ञानगा
थो। पादेनसाद्वदर्श॥ ॥थोनेज्ञानगाथायावश्लोकपु १०॥ ६ ॥नथनाम्तनेरान्म्याम्तनकोटिवेवल्छिं

॥शून्यतावादिवीषमो।गंभीरोदारगर्जन॥ ॥गथिंग्वपुरुषथोम्ह्योर।तथागतयाज्ञानतासमस्तप्रतिदको।असंख्या
याउनविज्याक।आकारसेयंमजीव।शून्यवादरए।महागंभीरथाहाकायमजिवथथिंग्वमञ्जुश्री॥ १ ॥धर्म्मसंखो
महाशब्दो।धर्मगण्डीमहारन।अपतिष्ठतिनिर्वान।दशदीग्धर्मदुन्दुभि॥ ॥धर्मसंखयाशब्दन।समस्तलोकयांमं
गजुव।गथिंग्वधर्मवाज्रन।जीगुरिदिगम्भवन।पर्यन्ननवसर्पावचोउ।देवलोकंमोक्षछोक।हनोंलोकयानउपदेसवि
व।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २ ॥अरूपोरूपवानाग्यो।नानारूपोमनोमय।सर्वरूपवभासश्री।रश्मिषपानिविम्बक॥४
॥ ॥गथिंग्वरूपमदु।सुयादें।नरंगीआदिनं।रूपवन्नागथेआसिध्यायात।अर्थेरूपोजुव।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ॥
॥३ ॥अपधुष्यामहेसाक्षो।त्रैधातुकमहेश्वर।समुछ्रितायमार्गस्थ।धर्मकेतुमहोदय॥ ॥जोंउंजोनेमजि १५

व।वुद्धादीन।त्रैलोकेया।इश्वर।उन्नमधर्मयामार्ग।थहासेंविज्याक।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ४ ॥त्रैलोकेककेमागथावी
लोर्ध्वप्रजापति।द्वात्रिंसलक्षणाधर।कान्तत्रैलोकेसुन्दर॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीयारूपा।स्वर्गमधेपाना।संवारक
हनोंगथिंग्वधारमा।सुयासिनंज्याथथविर।थथिंग्वपरमेश्वर।सुपनेनाक्षननसंपरमंजुव।त्रैलोकेसशोभार
चकंनवहं।थथिंग्वसुन्दरमेवमद॥ ५ ॥लोकेज्ञानंगुणाचार्य।लोकाचार्यविशारद।नाथनत्रात्रिलोकानां।स
रनान्नायनिरुत्तर॥ ॥समस्तलोकसमेवमदज्ञानि।समस्तगुनयाआचार्ये।समस्तलोकयागुरुत्वं।त्रैलोकेया
गुरुजुयाविज्याकहं समस्तकल्यानयाक।मञ्जुश्रीन।थोम्ह्योरस्केसरनयाकहं।मोक्षप्राप्तजुय॥ ६ ॥गगसो
भोगसम्भोग।सर्वज्ञज्ञानसागर।अविद्याअन्नके सर्सेभेना।भवपञ्जरदारन॥ ॥आकाससंखेररपंविविज्याक

समस्तशास्त्रपारंगतवञ्ज।ज्ञानयासमुद्र।अज्ञानहाउंन।वेजयानुगोडसमोवङ्कु।थथिंग्वमञ्जुश्रीसंसारयापञ्जल
खदका।थथिंग्वपञ्जर।मयंकज्ञाउंनपु।। ७ ।।समिमिनासेखसंक्लेश।संसारसेवपारग।ज्ञानाभिषेकमञ्जुटा
सम्यक्संवुद्धभूषन।। ।।गथिंग्वमञ्जुश्री।समस्तदुःखविशेषयाउंनमोवङ्कु।संसारयापारंगयाउंनमोक्षरा
वङ्कुल।थोस्योर।ज्ञाननउत्पन्निजुवमञ्जु(?)ट्वपोयाव।ज्ञानयाआभरनेनिशंविज्याक।। ८ ।।त्रिदुःखवदुःखवसंक्ले
शात्पन्नोननत्रीसुन्निन्तःसर्वावरनविनिसुक्त।आकाशसमनागनः।। ।।कायवाकचित्त।थोसेनानाउत्पन्नी
जुव।।पाप।समस्त।निशेषयाउंन।मोवङ्कु।थोनिमोवकं।मोक्षप्रदरावङ्कु।थापनायाकमञ्जुश्री।संसारसेङ्कुनं १६
रेउंमदयक।पोउंमदयक।साक्षप्रत्यक्ष।आसोथोस्योर।थथिंग्वमंजुश्री।। ९ ।।सर्वक्लेशमनानिरे।। प्रव्व

नन्नगनीगनःसर्वसत्वमहानागो।गुनसेखरसेवर।। ।।गथिंग्वमञ्जुश्री।समस्तपापनोरत्नं।महादुःखछेदन
याउंन।आकप्रत्यक्षमहायानसं।वरएपंविज्याक।समुल्ललोकसउत्नेम श्रेष्ठ।गुनसंथोस्योर।समस्तगुणाचूडाम
मनिंछलपोर।। १० ।।सर्वोपधिविनिसुक्तो।व्योमत्मनिसुष्थितःमहाचित्तामनिधर।सर्वरत्नोत्तमोविभूः।। ।।
संसारयाकुकार्य।छन्निमाया।थोनेअदिनेंनोरत्नारसदाकार।आकाशरपंविज्याक।हनोंचित्तामनिधररपंविज्या
क।अनेकरत्नयासिनं।उत्तम।थथिंग्वमञ्जुश्री।। ११ ।।महाकल्यानलुष्थितो।महाभद्रघटोत्तमा।सर्वसत्वा
र्थकृत्कर्त्ता।हितैषीसत्ववत्सर।। ।।गथिंग्वा महाकल्पवृक्षस्वरूप।याउंनविज्याक।रत्ननज्याउंनवेनिथें।हनों
समस्तप्राणीदको।उत्पन्नियाक।थोप्रानिपनिसकरेयां।सुखकल्यानयाक।जीवाजन्तुयाके।करुणाप्राव।थथि

लमञ्जुश्री॥ १२ ॥शुभाशुभज्ञकार्ज्ञा।समयज्ञसमयविभो।सत्वचित्रियज्ञवेज्ञा।विमुक्तित्रयकोविद॥ ॥
हनोंगथिंलमञ्जुश्री।मिङकारसेव।समयमण्डलयानन्नौसेव।स्वभावसेव।मंद्धयाथिंग्वरुप।समलप्रानवाय
पाव।हनोंहरुद्दीपयाकारनसेव।समलमुक्तिमार्गवियफ्व।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १३ ॥गुणिगुणज्ञोधर्मज्ञाप्र
शस्तोमंगरोदय।सर्वमंगरमाल क्त्रिग्निरहिमजुश्रशुभ॥ ॥समलगुनसेव।समलधर्म्मसेव।पवित्रयंग
स्तुव।शुभउदयजुवशुभमंगरयाथिनंमंगर।महाछमीस्वरुप।शुभकल्यानवन्न।थथिलमञ्जुश्री॥ १४ ॥
महात्नवोमहाश्वाश्व।महानन्दोमहारति।सत्कारसक्त्निभूमि।प्रमोदश्रीयसस्पति॥ ॥महानव।महाऊ १७
ससन।संप्रम्जुर।महाश्वासवन्न।महाआनन्दवन्न।महासंपन्निसहितन।आनन्दजुर।ओससुखमहायसव

न्न।थथिंलमञ्जुश्री॥ १५ ॥वरदोपावरदश्नेष्ठ।शरण्योसरणोत्नम।महाभयारिपवर।निशेषभयनासन॥ ॥
गथिंग्व।मंजुश्रीधारसा।समलयानवेरविव।महाफ्वानुसेरिङ्यायंजोगे।समलयासरनगनिथाय।हनोंसमलश
त्रुमोचकावचोउ।समलमयंमोचकु।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १६ ॥शिखिशिखरीपुञ्जटिरोजटिमौञ्जिकिरीटिमान्
।पञ्चाननपञ्चशीखेपञ्चचीरकसेखर४॥ ॥क्लेशन शोभायाऊनचोऊ।जुरुदु।सचोयवन्नया।किरीटनपुयाव
हनोंऊपानख्वार।ऊणुरिवस्व।मोदशपिऊनवनव।थथिंग्वमंजुश्री॥ १७ ॥महाव्रतधरोमौञ्जी।व्रलचारि
नोत्नम४महानपातपोनिष्ट।स्नात्रकोगोत्नमोश्रग्रणि॥ ॥भोवज्रपानि।गथिंग्वमञ्जुश्रीधायासा।महास्ख
र्मसचरपावचोऊ।हनोंमिखहानसप्रम्जुव।व्रलचर्य्यायाऊन।इन्द्रियजिनरपक्रियाकानवनप।नवसाहाय।

हनोंजनियाबर्न्नेवरर्पुगोन्नेमधायावेचिसत्वथिंग्व॥ १८ ॥बुलविसनोबुला।बुलनिर्वानमान्नव।मुक्तिमोक्षाविमोः
क्षांगो।विमुक्तिमान्ननाशिव४॥ ॥गथिंग्व।वागीश्वधारसा।बुलज्ञानरूपधररए।हनोंश्न्यनानिर्वानपदराक
मोक्षमार्गयादाना।समस्तसंसारया।बंधनमोक्षनयाक।अभिंनरूपामहाकोमर।कल्यानमंगरयाक।थथिंग्वमञ्जु
श्री॥ १९ ॥निर्वाननिवृक्तिशान्ति।श्लेयोनिर्वानमान्नक४सुखदुःखयान्नेन्नेनिष्ठ।वैरागोमुमधिक्षय॥ ॥
निर्वानसमाधियाऊव।महाशान्तस्वरूपानवोऊ।मंगरपराथ।दुःखसुखनोरत्ताव।वैरागिधररपंचोऊ।नपस
वररपंचोऊ।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २० ॥अजयोरूपमोवक्ष।निराभासोनिरंजन।निष्कसर्वगोव्यापि।सुक्ष्मवि
जमनाशुम॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीधारसा।सुनानंजयरपेमफव।व्यञ्जनथथिंऊअथिऊधकं।उपमायायमजी १८

व।वेन्नयाऊनसोसेनं।साक्षाननिरंजन।समस्तजीवाजन्तुयाकेव्यापरपाव।सुक्ष्मरूपन।संसारदयकेपान।पूर्णोत्
प॥ २१ ॥अरज्चविरजोविमरो।वान्तदोषखोनिरामय।सुप्रवुर्दोविवुर्द्धात्मा।सर्वज्ञसर्वविपर॥ ॥
गथिंग्वथोयागुरा।निर्मर।पापनरिप्तमञ्जुव।हनोंसमस्तदुःखंनोरत्तावचोऊ।व्याधिनंमपरूऊ।चित्तनआत्मा
ग नाम्हनमविष्यवर्न्नेमानसेव।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २२ ॥विज्ञानधर्मनानित।ज्ञानमद्वयरूपधृक।।निर्वि
कल्पनिरोग।त्पन्नसंवुर्द्धकायधृक॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।याऊपमा।अज्ञानअधर्मनोत्ताव।सुज्ञानधरर
पश्चोऊ।नानाविर्न्नयाविकल्पनोरनंचोऊ।वुद्धधर्म्मसंघयाकार्ययाक॥ २३ ॥अनादिनिधनोवुर्द्धा।अदि
वुद्धनिरंधय।ज्ञानेकचक्षुरमन।ज्ञानमुक्तिनथागन॥ ॥भोवजपानि।गथिंग्वमञ्जुश्रीधारसा।अनादि

बुद्धयावोधिपतज्ञान। आदिबुद्धउत्तम। मोक्षयाथान। पापनलिप्रमजुव। थथिंग्वज्ञानदर्शीन। मोमेविज्ञाक। निर्म
रमिखा। ज्ञानमुनिश्वरपाथथिंग्वञ्जुमंश्री॥ २४ ॥वागिश्वरोमहावादि। वादिराद्वादिपुंगव। वदनांवरो। वरिश्लेष्ठ
वादिसिंघोपराजीन॥ ॥गथिंग्ववागीश्वरधासांरा। समस्तवचनयां। शास्त्रयांस्वामि। समस्तदेवनं। वादिपाय
मफव। समस्तसाख्यवादियायस। वचनयाराजास्व। वचनज्ञायसवंगन। महावलिष्ठ। उत्तमश्लेष्ठपुरुष। वाक्यज्ञाउ
व। सिंघहाला। शब्दनाजंतुववथ्यां। हनेसमस्तशत्रुजयरपेवोउ॥ २५ ॥समन्तदर्शीपामोघ। नजोमारिस्तुदर्शी
ना। श्रीवत्सलुप्रभोदिप्ति। भाभासुरकरधुनि॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीधारला। समस्तप्रानिपनि। उत्पत्तियाउनवोउ
महानेजवन्न। उत्तमशोभाराक। श्रीवत्सनसेभायाउनवोउ। सूर्यप्रकासजुवथें। महानेजस्वि॥ २६ ॥महाभीष १२

स्थ
वरश्रेष्ठ। सोहंनानिस्तन्नरा। श्रेष्ठमैषर्य्यनस्तु। क्लेशव्याधिमहालिपू॥ ॥भोवज्रपानि। गथिंस्तमञ्जुश्रीधारसा। संस
रयावैद्य॥ गथिंग्वसंसारया। महावैद्याहाउनकंथथिंग्वपुनथक। थथिंग्वकराठकायाव। वैद्यमोचकाथे। मोचक्त। वे
दधायावाकेवउथें। उत्त्नरमेदुज्ञायंमजीव। अनगसंसारया। दुःखहाउनन। रोगीयारोगमोचकेयान। व्रासरासिमाथ्यंः
॥ २७ ॥त्रैलोकेनिरककानु। श्रीमान्नक्षत्रमण्डल। दशादिग्धर्मपर्य्यन्तो। धर्मध्वजमहोछ्य॥ ॥त्रैलोकायसंश्ले
ष्ठ। येननत्तेयार्थे। हनेनक्षत्रमण्डलसविज्याक। दशदिगपर्यन्तं। आकाशपर्यन्तन। धर्मध्वजथें। उचेयाउनवि
ज्याक। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २८ ॥जगद्धत्रैकविपूरो। मैत्रिकरुनमण्डरा। पद्मनत्पश्वर। श्रीमान्। रत्नछत्रोमहा
विम्रू॥ ॥जगत्संसारया। छत्रछायाथ्यंश्लेष्ठ। मैत्रिकरुणायाथाय। श्रीधर्मनत्पश्वरधरर प्रा। रत्ननज्याउनछ

त्रयेश्लेष्ट।थथिंग्वमंञ्जुश्री॥ २९ ॥सर्व्वबुद्धमहाराजा।सर्व्वबुद्धात्ममावहक।सर्व्वबुद्धमाहायोर्ग।सर्व्वबुद्धैकसा-
सन॥ ॥समस्तबुद्धयाराजा।समस्तबुधयाआत्ममाव।समस्तबुद्धयाआसनश।महावर्य्याधरर्पंचोरु।थथिं
लंमञ्जुश्री॥ ३० ॥वज्ररत्नभिषेकश्री।सर्वरत्नाधिपेश्वर।सर्वलोकेश्वरपति सर्ववज्रधराधिप॥ ॥वज्ररत्न-
त्नयाअभिषेकराक।गथिंग्वमञ्जुश्रीमहाशोभाराक।हनोंबुधर्मसंघयाइश्वर।हनोद्वरद्धीलोकयाइश्वर।अनं-
कवज्रधरयांअधिपति॥ ३१॥सर्व्वबुद्धमहाचिन्त।सर्व्वबुद्धमनोगति।सर्व्वबुद्धमहायक।सर्व्वबुद्धसाखनि
॥ ॥समस्तबुधयाकेचिन्तनर।समस्तबुद्धयामननव।समस्तबुद्धवशरिडजुर।हनोंसरखनिवाचयजुर
थथिंलंमञ्जुश्री॥ ३२ ॥वज्रसूर्य्यमहालोको।वज्रेन्दुविमलप्रभ।विरागादिमहारागो।विश्ववर्णोज्वलप्र २०

प्र॥ ॥गथिंलमञ्जुश्रीधारला।वज्रयानेज्ञन।सूर्य्ययानेज्ञथिंगुप्रकारसेव।हनोंनिर्मरचन्द्रविरागनसंपस्मे-
जुर।नानावर्णधररूपवजुलो॥ ३३ ॥संबुद्धवज्रपर्यंक।बुद्धसंगिनिधर्मघ्रक।बुद्धपद्मधरश्रीमान।सर्व
ज्ञज्ञानकोसध्वक॥ ॥मोवज्रपानि।गथिंग्वमञ्जुश्रीयाआसन।अभेथवज्रयाआसन।बुद्धयाशास्त्रसज्ञासे
नको।धर्मसवररूप।हनोंपद्मयाकेनठम्यानिजुर।उनिअन्यंतश्रीशोभा।थथिंग्वनामसंगिनि।समस्तबुद्धया
साम्रदकोसाम्लशास्त्र॥ ३४ ॥विस्वमायाधरोराजा।बुद्धविद्याधरोमहान।वजनीखोमहाखड्गो।विशुद्ध
परमाक्षर॥ ॥गथिलंपरमेश्वर।मञ्जुश्रीविश्वसंसारया।मायाधररूपलं।हनंगथिंलबुद्धयाशास्त्रधररूप
अजवचन्द्रहासखड्गज्वऊनधररपु।विशुद्धयाक।नेखडआक्षरनसंपस्मंजुव॥ ३५ ॥दुःखच्छेदमहायान।

वज्रधर्ममहासुख।जीनश्रीवज्रगांभीर्या।वज्रबुद्धियथाथवित्॥ ॥हनेंगथिंह्लमञ्जुश्री।अनेगठ्उवेमोच
काव।वज्राभीषेकनसंपसंजुव।हनोमहायानश्रीत्याया।हश्वर।जीननथागनयाम्रषहं।महागभीरबुद्धिवन्न।
श्रूल्पनाज्ञानदुविसिंचोउ॥ ३६ ॥सर्वपामितेनापरि।सर्वभूमिविभूषन।विशुद्धधर्मनैरात्म्या।सम्यग्ज्ञानेंदु
दुप्रभ॥ ॥बुद्धभूमिप्रर्षन।जीगुलिभूमिसाभुषरपंचोउ।अनेगअज्ञानमोचकाव।परमेज्ञानहाउनन।
वजूमायाक्रियार्थं निर्मल्याउनप्रकासयाकन्वं।थथिंवमञ्जुश्री॥ ३७ ॥मायाजालमहायोग।सर्वमन्त्रा
धिपपरवअशेषवज्रपर्यक।निशेषज्ञानकायधृक॥ ॥भोवज्रपाणि।गथिंवमञ्जुश्री।मायाजालआदीनं २१
समस्तमन्त्रयाअधिपति।हनेंगथीवा।अशेषज्ञानवरएप।वज्रआसनयाउनविज्ञाक॥ ३८ ॥समन्तभद्र

सुमति।क्षीतिगर्भाजगन्पति।सर्वबुद्धमहायोग।विश्वनिर्माननचक्रधृक॥ ॥गथिहलंमञ्जुश्रीधारसासनव
कल्यानयाक।उन्नमचिन्त।पृथिविआदिनं।जगनसंसारधररपंचोउ।थोसमन्तजीननथागन।ज्ञायरएथायवज्र
सत्वादयकेयान।चक्रधररपंचोउ॥ ३९ ॥सर्वभावस्वभावाग्र।सर्वभावस्वभावधृक।अनुत्पादधर्मविश्वा
र्थ।सर्वधर्मविश्वासथा।सर्वधर्मस्वभावधृक॥ ॥गथिंह्लमञ्जुश्रीधारसा समन्तस्पनंभावंरपेस्वभाव
धररपंचोउ।जोगधर्मयास्वभावलं।थोसंसारयाहेतु॥ ४० ॥एकक्षनामहाप्राज्ञा।सर्वधर्मववोध
धृक।सर्वधर्माभीसमयो।भूनान्तमुनिरयधृक॥ ॥गथिहलं एकाकारजानजुवपीरा।अनेगधर्मथाय
नायाक।अनेगधर्मयाकार।भूतनज्ञानियापरमगुह्जुयाविज्यालेमञ्जुश्री॥ ४१ ॥तिमितिसुप्रसन्नात्म

सम्यक्संबुद्धबोधिसत्व। प्रत्यक्षसर्व्वबुद्धानांज्ञानाग्निसुप्रभास्वर॥ ॥हनोप्राणिदकोबोधयाङावबोङ। परमा
र्थमहाज्ञानराक। समस्तबुद्धयाहवनेबोङ। ज्ञानयातेजनाजाज्वल्यमानयाङनबोन। थथिंलमञ्जुश्री॥ ४२ ॥प्र
त्यवेक्षनाज्ञानगाथा। द्वाचत्वारिशान॥ ॥थोनेप्रत्यक्षज्ञानयाव श्लोकप ४२॥ ❀ ॥इष्टार्थसाधकः प
र। सर्व्वापायविश्वधकं सर्वसत्वनमोनाथो। सर्वसत्वप्रमोचक॥ ॥गथिंगवमञ्जुश्री। हितकार्यसाधरप। स
मस्तप्राणिदकोया। मभिरुपदार्थदको। निशेषयाङनमोचक। समस्तप्राणियासिनंडस्तम। समस्तसत्वप्राणि
यानयमोचक॥ १ ॥क्लेसमंग्रामसुरैक। अज्ञानरिपुदर्पहान। धीशृंगारधरश्रीमान्। वीरविमत्सरूपिनि २२
॥ ॥संसारयादुःखवहाङन। शत्रुवसंग्रामयाय। महापराक्रमी। अनिसजुन। ह्नोंगथिंग्व। अज्ञानिस्वय

अज्ञानमोचक। बुद्धियाप्रभावन। चिर्त्तसत्त्वंगारधररप। श्रीशोभावनवीरभयंकरतपधररप। थथिंलमञ्जु
श्री॥ २ ॥वाक्डएशनाक्षपादनीक्षपननथा। श्रीमद्वज्रम्जाभोगगगनोगमंनर॥ ॥भोवज्र
पानिगथिलमञ्जुश्रीयाह्धरसा। शनछिकाराहानथोव। नानाप्रकारनेनोयरवम्हजुयाव। शोभावंनजुया
वा आकाशनं परिपूर्णजुयाव। नत्यकार्ययाङनविज्याक॥ ३ ॥एकपादनराक्रान्त। महिमण्डलतरेष्थित
ब्रह्मलेदशिषलाक्रान्ता। पादाङुष्ठनखेष्थित ४॥ ॥भोवज्रपानि। गथिंगवमञ्जुश्री। प्रीथिविसकेव्याप्त
पन्नेरावबोङ। प्रिथिविमण्डलसव्याप्तयाङनंबोङ। नेपापालीन ब्रह्मलोबोङपर्वन। लात्रयारशिमानलेसं
नवहं। थथिंग्लमञ्जुश्री॥ ४ ॥एकार्थोद्वयधर्मार्थ। परमार्थोविनेश्वरः। नानाविशात्रिरूपार्थ। चित्ते

स३

विज्ञानसन्तति॥ ॥ध्वलनद्धनाधर्मयाना ओंनिंहिंसाधायाधर्मयान। अनुत्तरज्ञानस्वरूप। वैनेयगनयाइश्वर। अ
नेगमनुष्यगनयां। सिद्धगनयाचिन्ने सज्ञानजायरपेयकं चोउ। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ५ ॥अक्लेषभावाथरती। स्वन
नारति एथी। भवरागारनित्वा। भवत्रयमहारती॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री। समलभावमंरय। स्वन्यनांसाधिसे
रया। संसारया अवगमन। वुयसियआदिनं नोत्नाव। स्वगुरिभावधर्मसमहारय॥ ६ ॥शुद्धशुभात्मद्रवच
सरवन्द्रार्कसासन। वारार्कमरए। लद्धायो। महारागनत्वप्रभ॥ ॥गथिंसमञ्जुश्रीधारसा शुद्धचरड। नोपूव
सुवडथ्ये। हनोनकरत्वसुयंव्रडथ्ये। चोउ। एस्मीनसपर्ताजुव। थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ७ ॥इन्द्रनीलाग्रसचीरे
महानिरकुरायध्वि। महामनिमयपक्षी। वुद्धनिमानभूषन॥ ॥गथिंग इन्द्रनील थ्विंग्व वलन निशं २३

।विज्पाक। हनोंपिन्द्रनीलथिंग्ववुकुडिस। हनोंमनिरत्नजपाउग निसाननिसे। शोभायाउग्न विज्पाक। थथिंग्व
मञ्जुश्री॥ ८ ॥लोकधातुगनाक्षिप॥ ऋद्धिपादपराक्रमास्मनिधरनन्नौ। चतुस्मृत्निसमाधिरान॥ ॥
गथिंग्वमञ्जुश्रीधारसा शानद्धिआदिनं लोकधातु। प्रारिता समस्तवक्षपायाक। ऋद्धिवलनसंपर्ताञ्जुवा। वरन
घरएप्र। मैत्रीकरुणा आदिनं। पानारनजायरप्र। ध्यानयासमाधिन्वं॥ ९ ॥वोधेराकुसुमामोद। नथाग
नगुणोदधि। अंगमागनयवि। सम्यक्संबुद्धमार्गविन॥ ॥वोधिविधायाज्ञान। थोनहाउगना। क्षजपावासना
थिंग्व। नथागनदकोयागुणायासागर॥ अष्टांगयोगयापारसेव। वुद्धयापरमार्थयारसेव। थथिंसमञ्जुश्री
॥ १० ॥सर्वसत्वमहासंगो। निसंगोगगनोपमा। सर्वसत्वमणाजानो। सर्वसत्वमनोजव॥ ॥गथिंग्वम

ञ्जुश्री॥समन्तप्रानिपासंगस्याक।हनोंगथिंग्वरूपासंगमङ्गु।निसंग।आकासथेंऽऊ।समन्तश्रीराजेनुया।मनत्रा
परपंपकु।हनोंमननयाथिंग्ववेगनसंपूर्ण्णजुव॥ ११ ॥सर्व्वसत्वेंद्रीयाथज्ञा।सर्वसत्वमनोथ्य।पञ्चस्कन्धवाथ
नन्नौज्ञ।प्रञ्चस्कंधविशुद्धधृक॥ ॥समन्तयाविन्नसंचोऊव।नेजोधानुराहानआदिन।पञ्चइन्द्रिसचेन्नन
दयका।वाऽंगुलियानन्नोसेव।धरपावंचोऊ।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १२ ॥सर्व्वनिनकोटिस्त।सर्वनिर्य्यानकौ
विद।सर्वनिर्यानमार्गस्त।सर्वनिज्यानदेशक॥ ॥गथिंग्वसमन्तनिर्य्यानस।श्रावकनिर्य्यानवय्यायाहव
नेचोऊ।अनेगनिर्य्यानसेव।नानानिर्य्यानयासेव।समन्तयाउपदेशविपफवाथथिंग्वमञ्जुश्री॥ १३ ॥ २४
द्वादशांगोभवक्षपनो।द्वादसाकाभुद्धधृक।चतुसत्वनयाकार।अष्टज्ञानाववोधधृक॥ ॥जिमनिगुली

करानसंपूर्ण्णजुव।सुयेमरएलयाभेदरपेफव।जीमनिलंसूर्य्यया।सुथभेदयाक।जायरपेना।आनन्दजाय
प।सत्यया।आकारन।विवेगआदिन।ध्यानाज्ञानआदिन।ज्ञानवन्न।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १४ ॥द्वादशाकार
सत्यार्थ।षोडशाकारनन्नौविद।विसत्याकारसंवोधि।विवुद्धर्वविन्यर॥ ॥गथिह्नमञ्जुश्रीधारसा।जीम
निगुलिसूर्य्यया।आकारसुन्निधरप।सूर्य्यदेवना।षोडसकारानसंपूर्ण्णजुक।हनोचन्द्रमायानन्नोषेव।निषना
वरवुद्धयाचर्य्यासेव।त्रैलोकेयाभूतनभविष्य।वर्त्तमानसेव॥ १५ ॥अमेयवुद्धनिर्मान।कायकोटिविभा
वक।सर्वप्यनाभिसमयो।सर्वचित्तक्षनाथविन॥ ॥असंष्या।आदिनं।सष्यायायमजीव।कोटीरवुद्ध
निर्मानयाऊनदयका।संसारयोनेनमन्नुधकं।क्षनिकचित्तधरपंचोऊ॥थथिंग्वमञ्जुश्री॥ १६ ॥नाना

यानत्रयोपायात्रगदर्थवीभावक।यानत्रीत्रयनिर्यान।एकयानस्थे स्थीनत॥ ॥नानायानयासान्नयाउपा
य।विद्यासेव।जगतसंसाय्या।उपायभिन्नरए।श्रावकपर्यंकमहायानसं।हृगुरियानसफलविव।थथिंग्वमञ्जु
श्री॥ १७ ॥क्लेशधातुविशुद्धात्मा।कर्मधातुक्षयंकर।ओघोदधिसमुत्तिर्णो।जोगकान्तारनिस्तत॥ ॥
गथिंग्वमञ्जुश्री॥समस्तपापविशुद्धयाउन्तामोचक।समस्तजन्मसंचारएपश्चोउ।हनोंसमस्तजोगयाअधिपति
स्त॥ १८ ॥क्लेशोपक्लेशसंक्लेशसुप्रहिनसवासन।प्रज्ञोपायमहाकरुणा।अमोघजगदर्थकृत॥ ॥
नानापापयालिन।नवपापदुःखविविवल।हनोंनवनेजन।विन्नाएआसनया।ज्ञानयाउपाय।करुनाधरएए। २५
जगतसंसारयाहितमोचकावा।विज्याक।थथिसमञ्जुश्री॥ १९ ॥सर्वसंज्ञाप्रहिनार्थो।विज्ञानार्थोनरोधकृत

सर्वसत्वमनोविषय।सर्वसत्वमनोगति॥ ॥समस्तसंमनउन्मासयाउन्तचोउ।समस्तप्रतिभूतवाउति
याउन्ताचोउ।समस्तसत्वयाता।आनन्दविव।समस्तसंसारयातसुखविविवसं।थथिसमञ्जुश्री॥ २० ॥सर्वस
त्वमनान्तस्थ।तचीत्तसमनागत।सर्वसत्वमनोल्हादि।सर्वसत्वमनोरति॥ ॥समस्तलोकयाहृदयसचोउ।थथिं
ग्वपरमेश्वर।मञ्जुश्रीया।ज्वगमनसानभारपेजुकोष्टल्लायमजीव॥ २१ ॥सिद्धांर्थसिद्धिसंकल्प।सर्वसांनि
विवर्जीत।निःसंदीग्धमतिस्त्र्यर्थ।सर्वार्थत्रीगुणात्मक॥ ॥सिद्धान्तज्ञानस्वरुप।समस्तसंसारया।नानाव्या
पारतनोडनपर्कचोउ।हुपदार्थसंसंखाभावसद्धः।श्वगुरिएसविज्याक।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २२ ॥पञ्चस्कंधा
थनिस्काल।सर्वक्षनासनाथवित।एकक्षनाभिसम्बोधि।सर्वबुद्धस्वभावधृक॥ ॥पिथिविस्कंधादित।ञागु

रीम्हनल्केंधाल्वगुरीवजमास्थान।कन्नादयकु।मदाकारंभावनानसंयस्ते।दक्षंपरनेमेवड।समन्तवुद्धयाल्वभावधर
रप।थथिंग्वमंञ्जुश्री॥ २३ ॥अनंगकायकायाग्रे।कायकोटिविभावक।क्लेषरूपसंदर्शी।न्ननेकेनुमहामुनि॥ ॥
कोटीश्शारिडडपकार।अनेगरूपदयकाव।न्नध्वजसवोङ।महामनिन।शोभाजुर।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ २४ ॥सम
न्नाज्ञानगाथांचनुविंशनि॥ ० ॥समन्तज्ञानयावश्लोकप२४॥ ॐ ॥सर्वसंवुद्धवोधव्यो।वुद्धवोधिरनुत्त
र।अनक्षरमन्त्रयोनि।महामन्त्रकुलत्रय॥ ॥समन्तवुद्धयाज्ञानप्रकासयाक।वुद्धया अनुत्तरयोगननु।सेयदव।
आषरमद।मन्त्रस्वरूप।स्वगरिमन्त्रयाकुलनोमंञ्जुश्री॥ १ ॥सर्वमन्त्रार्थजनको।महाविन्दुरनक्षर।पञ्चाक्षरो २६
महाशून्या।विन्दुशून्यषडक्षर॥ ॥आकारविन्दुमान्त्राधररप।नमोवुद्धायधाय।पंचाक्षरधाय।शून्यजुवस्वरूथो

पका४
पा।थथिंग्वमञ्जुश्री।विंदुमदु अक्षर।षडक्षरीधाय।अरपंचनधायड॥ २ ॥सर्वाकारनिराकार।षोडशार्द्ध
विविन्दुधृक॥अकारसवर्सानिन।चनुर्थध्यानकोटीधृक॥ ॥सर्वाकारंमदु।जीमनिगुरियावद्धीयानंव
ही।पेग्वडआसरविंदुस्वरूपधरप।थथिग्वअथिग्वधको।वेन्नयायमजीव।थथिंग्वमञ्जुश्री।थोपेग्वडमन्त्र
सहजानन्दजुकोष्ठग्ववर्यायमजीव॥ ३ ॥सर्वज्ञानकराभीज्ञ।समाधिकुरप्वन्नये।समाधिकायाग्रे।सर्व
संभोगकायरान॥ ॥समन्तध्यानया।करानसपस्मजुव।हनोंसमाधिकुलग्रोत्रसेव।समाधिधररपु।सम
स्तनानासुखभोगसाभुक्तरपावविज्याक।समन्तसमाधियाराजा।थथिंलमञ्जुश्री॥ ४ ॥निर्मानकायकाया
ग्रे।वुद्धनिर्मानवंशाधृक।दशदिग्धर्मनिर्मान।यथावजगदर्थकृत॥ ॥गथिंलमञ्जुश्रीधालसा।निर्मान

शाउदयक्व।हनोंबुद्धनिर्मानयाक।दशदिग।आदिन।स्वनुदीगमवनदयक्व।थथिंग्वसंसायाउपकारि।मञ्जु
श्री॥ ५ ॥देवान्निदेवदेवेन्द्र।सुवर्ज्ञोदानवाधिप।अमरेन्द्रसुगुरु।पमर्थप्रमथेश्वर॥ ॥गथिंग्वा।धर्म
धातुमञ्जुश्री।समस्तदेवपासिनदेव।समस्तदेवयाराज।इन्द्रल्वथोम्पोहजु।समस्तदानओपाअधिपती।ह
नोंसमदेवपास्वामि।समस्तदेवयागुरु।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ६ ॥उन्नी[illegible]र्मभवकोनार।एकशास्ताजग
द्गुरु।प्रक्षांनोदशदिल्लोक।धर्मदानपतिमहान॥ ॥संसारहाउगन।दुर्गनीवनउगव।नेमयापारंगवउ।स
मस्तसं[illegible]यागुरु।जगत्संसारं।शिवेयाउनवोउ।धर्मदानपति[illegible]उनवोउ।थथिंग्वमञ्जुश्री॥ ७ ॥मै २७
त्रिसन्नोहसनर्द्ध।करुधर्मधर्मत४प्रज्ञाखड्गधनुर्वान।क्लेशज्ञानानरंजह॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।समस्तवं
नो।

मित्रनावपाक।थोमित्रहाउगन।करुणाहाउगकववनफिउगव।प्रज्ञाखड्गज्वउगव।धनुवाज्वउगव।क्लेशहाउ
शत्रुव।जुर्द्धयाउगव।संग्रामन्या।ववकंवोउःहल।थथिंलमञ्जुश्री॥ ८ ॥मारारिमारजीवीर।चतुमारभयान्तक
न।सर्वमारघमञ्जपना।संबुद्धोलोकनायक॥ ॥ख्वलाआदिन।पेलमारपनि।जयरपावबोउः।थथिंग्वमञ्जु
श्री।हनोंगथिंग्व।थोनिमारयाभयंमोचक्व।ज्ञानधररपु॥ ९ ॥बन्देपद्ज्योभीवाद्त्व।माननिन्पस।अर्वनि
पर्त्तमोमान्या।नमस्यापरमीगुरु॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।समस्तसेनं।नमस्कारयाउन।नयाहल।हनोंपद्ज्ञा
याउनफसरपंनयाहल।मानययायंथोहल।सेवरपेथोहल।थथिंग्वपरमगुरुत्वंमञ्जुश्री॥ १० ॥त्रैलोकैक
वैमागनि।व्योमापर्यन्नविक्रम।त्रैविश्वल्वत्रीयरत्न।षडभीज्ञषडनुस्मृती॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्री।त्रै

लोकेसंस्मरवनविज्याक।आकासलंव्यापरपंवीज्याक।सोनाविग्रानशंज्ञुक्नजुव।उन्नमवुलवन्न।महापवित्र।षुनामे
दपिथिविआदिन।षुगुरिनन्नोसेव।कोमरअदिन।षूना।वुद्धिवन्न॥ ११ ॥वोधिसत्वमहासत्व।लोकातिनो
महर्द्धिक।प्रज्ञापारमिनानिष्ठ।प्रज्ञानन्नोनमागन॥ ॥लोकनसेयमजीव।महानवधिक्षायाज्ञान।हारिड
धररपु।हनोंप्रज्ञापारमिनाया।नन्नोसमाविघ्नररप।ध्यानयाऊनवोऊ थथिहलमञ्जुश्री॥ १२ ॥स्वात्मविन्परवि
त्मवेःसविज्योयपुंगन।सर्वोपमामनिकान्न।ज्ञयोज्ञानाधिपपरश॥ ॥गथिहलमञ्जुश्री।थवआत्मामेवयाआ
त्मासेव।दुखसुखवंधनासेव।हनोंसमस्तलोकसम्याप्रपंधररपु।थथिंहलअथिंसधासेउपमानयमजीव।उपमा· २८
ह्वायंमजीव परमार्थज्ञानजोकोजिर॥ १३ ॥धर्मदानपतिश्लेष्ठ।वनुमुद्रापदेशक४ पर्युपाहोनमोजगत्।निर्य्यां

नेत्रयपायिनी॥ ॥धर्मदानयाकलंथोस्पोर महाउन्नम श्लेष्ठथो।हनोंमहामुद्राआदिनं वनुमुद्रासेवहं।हनोंश्रावकप्र
त्पकमहायानस उपदेशधररपु कर्मयाकलंथो।जगतसंसारनपूजायायजोग्पेलंथोस्पोर थथिहलमञ्जुश्री॥ १४॥
परमार्थविसुद्धश्री त्रैलोकेसुभगोमहान्।सर्वसंपकरश्रीमान्।मञ्जुश्रीश्रीमनाम्वर॥ ॥गथिंग्वमञ्जुश्रीपरमा
र्थज्ञाननिर्मरश्री मन्नत्रैलोकेसं।शोभारावक।हनोसर्वसंपनिवन्न।श्रीशोभावन्न।शोभायमानयाऊनवोऊ॥ १५॥
कृत्यानुथानगाथा।पञ्चदश॥ ॐ ॥नमस्तेवरदवज्राग्रे॥भूतकोटिनमोस्तुते।नमस्तेशून्यतागर्भ।वुद्धवोधि
नमोस्तुते॥ ॥गथिहलमञ्जुश्रीधारस्यावरदानप्रसादविव।वज्रयानंकूपायाभागयानंनमस्कार।अनेगको
टिद्विआदिनं।पञ्चभूतआत्मयातं।नमस्कार।शून्यतागर्भज्ञानज्ञायरपलंयानंनमस्कार।ज्ञानधररपलंयानंन

मस्कार।बुद्धयाज्ञानधररपुल्लयानंनमस्कार।बुद्धयाज्ञानविवल्लयानंनमस्कार॥ १ ॥बुद्धरागनमस्तुभ्यं।बुद्धकायन
नमोनमः॥बुद्धप्रीतिन्निनमोस्तुभ्यं।बुद्धमोदनमोनमः॥ ॥गथिह्लमंजुश्री।बुद्धरागव्यापरपुल्लयानंनमस्कार।बुद्धया
शरिडधररपूल्लयानंनमस्कार।बुद्धयामैत्रीधररपूल्लयानंनमस्कार।महाप्रीतिनियाकल्लयानंनमस्कार।बुद्धयाआनन्द
विवल्लयानंनमस्कार॥ २ ॥बुद्धप्रिमितिनमस्तुभ्यं।बुद्धहासोनमोनमः॥बुद्धवाचनमस्तेनु॥बुद्धभावोनमोनमः॥ ॥
मैत्रीज्ञानप्रकाशयाकल्लयानंनमस्कार।ज्ञानकुल्लुरावबोउल्लयानंनमस्कार।बुद्धयावचनल्लाकल्लयानंनमस्कार।बुद्धया
भावनबोउल्लयानंनमस्कार॥ ३ ॥अभवोभवनमस्तुभ्यं।नमस्तेज्ञानसंभव।गगणोद्भवनमस्तुभ्यंनमस्तेज्ञानसंभव २९
॥ ॥खरनमजायरपल्लयानं।नमस्कार।ज्ञानशालिधररपल्लयानंनमस्कार।आकाशशाधररपल्लयानंनमस्कार

समन्तज्ञानजनसंपरमंजुवल्लयानंनमस्कार॥ ४ ॥मायाजारेनमोस्तुभ्यं।नमस्तेबुद्धनाटक।नमस्तेसर्वसत्वेभ्यो।ज्ञानका
यनमोस्तुते॥ ॥मायाजारमन्नसेवल्लयानंनमस्कार।ननन्तयाकल्लयानंनमस्कार।अनेगसंसारयाज्ञानधरर
पल्लयानंनमस्कार।समन्तसेननमस्कारयाउनयाल्लयानंनमस्कार॥ ५ ॥इतिपञ्चतथागतस्तुतीगाथापञ्चमः॥
॥ ३६० ॥ॐसर्वधर्मभावस्वभाव।विशुद्धवज्र।अआअंअःप्रकृतिपरिशुद्धि।सर्वधर्मायदुत्तर।सर्वतथागतज्ञानका
यामञ्जुश्रीपरिशुद्धितामुपादायेति।अआअः॥ॐसर्वतथागत।हृदय।हर२ॐहूंह्रीं।भगवान्ज्ञानमूर्त्ति।वागिश्वरमहावा
चसर्वधर्मगगनामर।परिशुद्धिधर्मधातुज्ञानगर्भआ॥ ॥मन्त्रविन्यास॥ ॥थोपरमाक्षर।समन्तधर्म
स्वभाव।निस्वभाव।निर्मरयाउनबोउ।थोनामसंगिनि।थवसन्तिनउदयजुव।संसारअन्तपर्यन्तन।ज्ञानमूर्त्तिन।

तुम३
वागिश्वरयावचन।मोक्षगनित्वं।जंनयाखेहनोमञ्जुश्रीयासरिड।स्वर्गमध्यपातालनो।व्याप्तयाउनवोउ।ज्ञानमुर्त्तिन
वागिश्वरया।वचनयाअधिपति।सरस्वतियामेत्रोकासचोउ।समस्तधर्मश्वरूप।आकाशथें निर्मर।धर्मधातुयाज्ञा
न।आकाशस्वविवलं॥ १ ॥अथवज्रधरश्रीमान।हृष्टहृष्टानाङ्गरी।प्रणामेनाथसंबुद्धं।भगवन्तथागतश्च॥ः
॥ ॥थो निवश्रीशाक्यमुनिनथागनस्केडेउनउ।वज्रधरअदिन।वज्रपाणिन्तं।हर्षमानयाउन।संतुष्टयाउन।
हाथज्वजरपं।श्रीशाक्यमुनिस्त्वंनमस्कारयाम॥ २ ॥अनेववक्तविधिनाथे।गुहेन्द्रोवज्रयानिभि।समाऽर्द्धक्रोर
राजान।प्रोवाचावेरिदस्वर॥ ॥थोवज्रधरन।मिवदाकोमेक्षहोक।गुह्ययाराजा।वज्रपानिप्रभतिन।क्रोर ३०
राजासहितन।नवशवदयाउन।समस्तवीरवं।थिउननर॥ ३ ॥अनुमोदामहेनाथे।साधुरसुभाषित।त्वनोस्मा

वस
कमहेनाथ।सम्यक्संवोधिदायक॥ ॥गथेवज्रयानिआदिनं।गथेज्ञारधारस।हेनाथ।श्रीशाक्यमुनि।जेपनि।सक
र।हर्षमानजुरो धनेरनवधउ।श्रीशाक्यमुनि।हेजुरु।जेपनिसनवकार्ययानो।फलपोलसेन।गथिंगवअर्थधारस
जगसंसारया।उपकारन।संबोधिज्ञानपदप्रायदवगुरी।कार्यथो।फलपोलसेनकउ॥ ४ ॥जगनेवस्यनाथ
वा।विमुर्त्तिफरकाक्षिण।श्रेयोमार्गोविशुद्धोयं।मायाजारेनत्रोत्रिक॥ ॥थोरवजुसुगथिंगवधारस।जगनसं
सारयाकामनायाक।त्वया।मोक्षपदराक।कल्यानमार्गसदुविवकु।गनज्ञायाधारसा।मायाजारत्रंत्रसज्ञाया॥१
॥ ५ ॥गंभीरोदारवैपुर।महार्थोजगदर्थेन।बुद्धानाविषयोहेष।समाकंबुद्धभाषित॥ ॥गथिंगवनामसंगि
तियाखे।अथाहि।सेवमडु।उन्नमनंत्रवव।नवअर्थवव।लोकयाहितयाक।थोमेवनामखु।समस्ततथागतया।

घनओड्थिंगुखा।सम्यक्तीवुध।श्रीशाक्येमुनिनआज्ञादकाव।। ६ ।। ।।इतिडषसंहारगाथाषट्।। ।।
आर्य्यमायाजारषोडशसाहस्रीका।महायोगनज्ञानपाथि।समाधिजारपनरा।भगवन्ननथागत।श्रीशाक्येमुनिभा·
षिता।भगवन्नमञ्जुश्रीज्ञानसत्वस्याद्वय।परमार्थनामसंगितिपरिसमाप्त।। ।।थोनिडन्नमञ्जुश्रीयाख·
मायाजारतंत्रस्यङ्काया।जीमषुदोर्ष्ठसहस।महायोगसवोऊ।मूलपरमयोगसवोऊ।समाधिजारपनरसपिका
या।श्रीशाक्येमुनिनङ्काया।ज्ञानडाकिडश्वरपंवोऊ।परमार्थनामसंगितिथोलिनसमाप्तजुरो।। ।। ।।
येधम्मात्यादि।। ।। ।।सम्वत् २८० मिनिवेशाषशुक्लपक्षअष्टमिपरनौम्यायांतिथौ।। अश्ले ३१
शानक्षत्रेगंधजोगेआदित्यवारसंपरसंकरोति।।शुभं।। ।।लिखितंनलखीयामहिन्द्रविरवज्राचार्य्यनवोयाजुलो।।

आशा सफूकुथि
ASHA ARCHIVES
511